



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 ज्येष्ठ 1940 (श10)
(सं0 पटना 502) पटना, बुधवार, 30 मई 2018

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

28 मई 2018

सं०सं०-16/टी. 2-45/2016-707(आ०चि०)—स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आयुष निदेशालय के अधीनस्थ कार्यालयों के वर्ग-3 के पद यथा कार्यालय अधीक्षक, प्रधान लिपिक/प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल/प्रशासी पदाधिकारी, लिपिक, आशुलिपिक-सह-टंकक, लिपिक-सह-भण्डारपाल, भण्डारपाल, सहायक, टंकक, लिपिक-सह-टंकक, मिश्रक, प्रयोगशाला प्रावैधिकी, प्रयोगशाला सहायक, म्युजियम कीपर, लाईब्रेरियन, आर्टिस्ट आदि राज्यस्तरीय पद घोषित थे। परिणाम स्वरूप इन पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मियों को सेवा संबंधी सामान्य मामलों यथा उपार्जित अवकाश, सामान्य भविष्य निधि, सेवा सम्पुष्टि, ए०सी०पी० आदि के लिए मुख्यालय स्तर पर निर्भर होना पड़ता था, जिससे मुख्यालय का कार्य बोझ बहुत अधिक होता था और जिलों में कार्यरत वर्ग-3 के कर्मियों को अनावश्यक कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ता था। एलोपैथ प्रक्षेत्र में वर्ग-3 के पद जिला स्तरीय है।

सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि आयुष प्रक्षेत्र के वर्ग-3 के सभी पद जिलास्तरीय पद होंगे। वर्तमान में कार्यरत वर्ग-3 के कर्मियों को अन्तिम रूप से जिला आवंटन का कार्य आयुष निदेशालय के स्तर से किया जायेगा। अधिसूचना निर्गत की तिथि से 01 माह के अन्दर अन्तिम रूप से कर्मियों को आवश्यकता का आकलन कर जिला आवंटित कर दिया जायेगा।

जिला स्तरीय व्यवस्था के तहत नियुक्ति/अनुशासनिक प्राधिकार निम्नवत् होंगे :-

1. जिला देशी/आयुष चिकित्सा पदाधिकारी – जिले एवं संलग्न (अधीन) जिले के वर्ग-3 के सभी कर्मी (महाविद्यालय/अस्पताल के कर्मियों को छोड़कर)।
2. सभी प्राचार्य – संबंधित महाविद्यालय में कार्यरत सभी कर्मी।
3. सभी अधीक्षक – संबंधित अस्पताल में कार्यरत सभी कर्मी।
4. उपाधीक्षक – 10 शय्यायुक्त होमियोपैथिक अस्पताल में कार्यरत सभी कर्मी।
5. प्रबंधक – राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला में कार्यरत सभी कर्मी।
6. अनुसंधान पदाधिकारी – राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अनुसंधान ईकाई में कार्यरत सभी कर्मी।

आयुष प्रक्षेत्र के वर्ग-3 के कर्मियों से संबंधित पूर्व के सभी संकल्प/परिपत्र/आदेश /पत्र/अधिसूचना निर्गत की तिथि से निष्प्रभावी माने जायेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 502-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>